

ET-M2120 Series M2110 Series M2120 Series



EN Start Here
TC 安裝說明

HI यहाँ आरंभ करें
MN Энд эхэл




© 2019 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tank is filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明
必須小心處理此印表機的墨水。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水碰到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

पहले इसे पढ़ें
इस प्रिंटर के लिए इंक को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए। इंक के टैंक भरने जाने या इंक रिफिल किए जाने के दौरान इंक फैल सकता है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो यह शायद निकलेगी नहीं।


Үүнийг эхлээд уншина уу
Энэ принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах ёстой. Бэхний сав дүүргэх, эсвэл дахин дүүргэх үед бэх асгарах аюултай. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал, арилахгүй байж магадгүй.



Additional items may be included depending on the location.
視乎不同位置，可能包含額外項目。
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।
Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.
原始墨水瓶會有一部分墨水被用於填充印字頭。此墨水瓶可能比後來的墨水瓶列印頁數更少。
आरंभिक इंक बोतल का उपयोग प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि यह बोतल बाद की इंक बोतलों की तुलना में कम पेज प्रिंट करे।
Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд, эхний бэхний бортогыг хэсэгчлэн ашиглана. Энэхүү бэхний бортог нь дараагийн бэхний бортоготой харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.









Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
除非依指示操作，否則請勿連接 USB 線纜。
जब तक ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए, तब तक किसी USB केबल को कनेक्ट न करें।
Зааварчилгаа өгөөгүй л бол USB утсыг холбож болохгүй.














See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. For information on using the printer, see the User's Guide on our web site. Select "Support" to access the manual.
請參閱本指南或 Epson 視訊指南以瞭解印表機設定說明。有關使用印表機的更多資訊，請參閱我們網站上的進階使用說明。選擇「支援」以存取手冊。
प्रिंटर के सेटअप निर्देशों के लिए यह मार्गदर्शिका या Epson वीडियो मार्गदर्शिका देखें। प्रिंटर के उपयोग के बारे में जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता गाइड देखें। मैनुअल का एक्सेस करने के लिए "सहायता" चुनें।
Принтерийг тохируулах зааврыг энэхүү гарын авлага эсвэл Epson видео гарын авлагаас үзнэ үү. Энэ принтерийг ашиглах талаарх мэдээллийг авах бол манай вебсайт дээрх Хэрэглэгчийн Заавар-г харна уу. Гар аргад нэвтрэх бол "Дэмжлэг"-ийг сонгоно уу.












Setting Up the Printer / 設定印表機 / प्रिंटर सेट करना / Принтерийг тохируулах













6 Open the scanner unit.
開啟掃描器裝置。
स्कैनर यूनिट खोलें।
Сканнерыг нээх.




1 Ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.
If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not reinsert the ink bottle when the ink has reached the top line; otherwise ink may leak.
Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.
Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
Do not allow the top of the ink bottle to hit against any objects after removing its cap; otherwise ink may spill.
Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak.



14 Press **Start Here** for 5 seconds and follow on the on-screen instructions. 按下 **Start Here** 5 秒，並遵循畫面上的說明操作。
को 5 सेकंड तक दबाएँ और स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।
᠒-᠕ 5 секунд дараад дэлгэц дээрх зааварчилгааг дагана уу.



19 Connect your computer or smart device to the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.
連接電腦或智慧型裝置至印表機。瀏覽網站以安裝軟體和設定網路。
Windows 使用者亦可使用提供的 CD 安裝軟體和設定網路。
अपने कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। Windows उपयोगकर्ता दी गई CD का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।
Өөрийн компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөө прінтерт холбоно уу. Вэбсайт руу орж, программ хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулна уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан программ хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.



Enter the product name and select "Setup" to install the software and configure the network.
輸入產品名稱，選擇「設定」以安裝軟體和設定網路。
उत्पाद नाम दर्ज करें और "सेटअप" चुनकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नेटवर्क को कॉन्फिगर करें।
Бүтээгдэхүүний нэрийг оруулаад "Тохируулга"-ыг сонгож программ хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулна уу.


The printer is ready to use.
印表機已做好使用準備。
प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार है।
Принтер ашиглахад бэлэн боллоо.

This product does not notify you when the ink is low. Be sure to visually check the ink levels in the ink tanks.
本產品在墨水量低時不會通知您。請務必目視檢查墨水匣內的墨水存量。
यह उत्पाद इंक कम होने की जानकारी नहीं देता है। इंक टैंक में इंक के स्तर को देखकर जांचने के लिए सुनिश्चित रहें।
Бэхний хэмжээ бага болоход бүтээгдэхүүн танд мэдэгдэхгүй. Бэхний сав дахь бэхний түвшинг харж шалгаж байгаарай.




Using Smart Devices with Wi-Fi Direct (ET-M2120, M2120 Series only) / 透過 Wi-Fi Direct (僅限 ET-M2120、M2120 系列) 使用智慧型裝置 / Wi-Fi Direct (केवल ET-M2120, M2120 Series) वाले स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करना / Wi-Fi Direct-तैयि उखाालाग төхөөрөмж ашиглах (зөвхөн ET-M2120, M2120 Series)

Wi-Fi Direct Mode allows you to setup the printer to communicate directly with your smart devices without requiring a wireless router or access point. See the User's Guide for more details.
Wi-Fi Direct 模式允許您設定印表機與您的智慧型裝置直接通訊，無需無線路由器或存取點。若需更多詳細資訊，請參閱進階使用說明。
Wi-Fi Direct मोड से आप वायरलेस राउटर या एक्सेस प्वाइंट की आवश्यकता के बिना प्रिंटर को सीधे अपने स्मार्ट डिवाइस से चला सकते हैं। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।
Wi-Fi шууд горимын тусламжтайгаар та прінтерийг утасгүй хүлээн авагч эсвэл хандах цэггүйгээр шууд ухаалаг төхөөрөмжтэйгөө холбохоор тохируулах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэрэглэгчийн Заавар-аас үзнэ үү.


Enter the product name and select "Setup" to configure Wi-Fi Direct. 輸入產品名稱，選擇「設定」以安裝軟體和設定 Wi-Fi Direct。
उत्पाद नाम दर्ज करें और Wi-Fi Direct को कॉन्फिगर करने के लिए "सेटअप" चुनें।
Бүтээгдэхүүний нэрийг оруулаад "Тохируулга"-ыг сонгож Wi-Fi Direct-ийг тохируулна уу.




Copying / 正在複印 / कॉपी करना / Хуулбарлах




4 Select **Copy**.
選擇複印。
कॉपी करें का चयन करें।
Хуулах-ыг сонгох



5 Make other settings as necessary, and then Press \diamond .
進行其他必要設定，然後按下 \diamond 。
आवश्यकतानुसार दूसरी सेटिंग्स करें, और फिर \diamond दबाएँ।
Шаардлагатай бусад тохиргоог хийгээд \diamond -г дарна уу.



You can check the various copy settings in the *User's Guide*.
您可以在 *進階使用說明* 中查看各種複印設定。
आप उपयोगकर्ता गाइड में जाकर विभिन्न कॉपी सेटिंग्स की जांच कर सकते हैं।
Та *Хэрэглэгчийн Заавар*-с олон төрлийн хуулбарлах тохиргоог шалгах боломжтой.



Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / इंक बोतल कोड / Бэхний савны кодууд

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европ бол

M2110/M2120 Series	110*/110S* ²
ET-M2120 Series	111

For Asia / 對於亞洲 / एशिया के लिए / Ази бол

	005*/005S* ²
--	-------------------------

*High capacity / *Standard capacity

**高性能 / **標準性能

*1 उच्च क्षमता / *2 मानक क्षमता

*1 Өндөр багтаамж / *2 Стандарт багтаамж


! Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
若使用非本手冊所述的 Epson 原廠墨水，而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。
वास्तविक Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।
Epson-н жинхэнэ бэхнээс өөр бэх ашиглавал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-н баталгаанд хамрахгүй.

Guide to Control Panel / 控制面板指南 / कंट्रोल पैनल की मार्गदर्शिका / Хянах самбарын заавар

	Turns the printer on or off. 開啟或關閉印表機的電源。 प्रिंटर को चालू या बंद करता है। Принтерийн асааж, унтраана.
	Displays the home screen. 顯示主畫面。 होम स्क्रीन को प्रदर्शित करता है। Нүүр дэлгэцийг харуулна.
	Displays the solutions when you are in trouble. 您遇到問題時，可顯示解決方案。 जब आप परेशानी में होते हैं तो समाधान प्रदर्शित करता है। Таныг асуудалтай тулгарахад шийдлийг харуулна.
	Use the \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright buttons to move the focus to the target, and then press the OK button to open the selected menu or to make settings. 使用 \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright 鍵移動焦點至目標，然後按下 OK 鍵以開啟選取的選單或進行設定。 लक्ष्य पर फोकस करने के लिए \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright बटनों का उपयोग करें और फिर चयनित मेनू खोलने या सेटिंग्स करने के लिए OK बटन दबाएं। फोकस бай руу шилжүүлэхдээ \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright товчийг ашиглаад, сонгосон цэсийг нээх эсвэл тохиргоо хийх бол OK товчийг дарна уу.
	Stops the current operation. 停止目前的操作。 वर्तमान कारवाई को रोक देता है। Одоогийн ажиллагааг зогсооно.
	Starts an operation such as printing or copying. 開始列印或複製操作。 कोई परिचालन शुरू करता है जैसे कि प्रिंट करना या कॉपी करना। Хэвлэх болон хуулах үйлдлийг эхлүүлнэ.
	Applies to a variety of functions depending on the situation. 適用於各種功能，根據具體情況而定。 स्थिति के आधार पर विभिन्न कार्यों पर लागू होता है। Нөхцөл байдалаас хамаарч янз бүрийн функцүүдэд хэрэглэгдэнэ.
	Returns to the previous screen. 回到上一畫面。 पिछली स्क्रीन पर वापस जाएं। Өмнөх дэлгэц рүү буцна.

A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the *User's Guide* for more details.
如果出現錯誤或需要您注意的訊息，LCD 畫面上會顯示代碼。若需更多詳細資訊，請參閱 *進階使用說明*。
यदि कोई ऐसी त्रुटि या जानकारी है जिसे आपको दिखाने की आवश्यकता है, तो LCD स्क्रीन पर एक कोड दिखने लगता है। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।
Та анхааралдаа авах шаардлагатай алдаа эсвэл мэдээлэл байвал LCD дэлгэц дээр код гарч ирнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг *Хэрэглэгчийн Заавар*-аас үзнэ үү.


Press the \odot button to view some troubleshooting options.
按下 \odot 鍵以檢視一些故障排除選項。
 \odot бтэн дबाकर कुछ समस्या निवारण विकल्प देखें।
Асуудал шийдвэрлэх сонголтуудыг харах бол \odot товчийг дарна уу.



Checking Ink Level and Refilling Ink / 檢查墨水存量和填充墨水 / इंक के स्तर और इंक रीफिलिंग की जांच करना / Бэхний түвшинг шалгах болон бэхийг дахин дүүргэх


1 Check if the ink level is below the lower line.

檢查墨水存量是否低於最低標線。
जांचें कि क्या इंक का स्तर निचली रेखा से नीचे है।
Бэхний түвшин доод шугамнаас доогуур байгаа эсэхийг шалгана уу.



! To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank. Continued use of the printer when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.
若要確認實際的墨水存量，請查看產品的大容量墨水槽中的墨水存量。若在墨水存量低於大容量墨水槽的最低標線時繼續使用印表機，可能導致產品損壞。
यह पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में कितनी इंक शेष है, सभी उत्पाद के टैंकों में इंक स्तर की देख कर जांच करें। इंक का स्तर टैंक पर निचली लाइन से नीचे होने पर प्रिंटर का निरंतर उपयोग करने से उत्पाद को नुकसान पहुंच सकता है।
Бэхний бодит үлдэгдлийг шалгахын тулд бүтээгдэхүүний саван доторх бэхний түвшинг нүдээр шалгана. Бэхний түвшинг савны доод шугамаас доогуур байхад үргэлжлүүлэн ашиглавал бүтээгдэхүүнийг гэмтээж болзошгүй.

2 Select **Maintenance > Fill Ink**.
選擇 **維護 > 填充墨水**。
रखरखाव > स्थायी भरें चुनें।
Арчилгаа > Хорыг цэнэглэх-г сонгоно уу.



3 Follow the instructions on the screen to refill the ink.
依據畫面上的說明填充墨水。

इंक को रीफिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж бэхийг дахин дүүргэнэ үү.

Print Quality Help / 列印品質說明 / प्रिंट गुणवत्ता सहायता / Хэвлэх чанарын тусламж

If you see missing segments or broken lines in your printouts, or if blank sheets are printed, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.

如果您在列印成品中看到缺少區段或虛線，或列印了空白頁，請列印印字頭檢查圖案以查看印字頭是否堵塞。

यदि आपको अपने प्रिंटआउट में अनप्लग्ड सेगमेंट या टूटी हुई रेखाएँ दिखाई देती हैं, या यदि खाली शीट प्रिंट होती हैं, तो प्रिंट हेड नोजल के भरने होने की जांच करने के लिए नोजल जांच पैटर्न प्रिंट करें।



Хэрэв хэвлэлт дээр дутуу сегмент, тасарсан шугам байх эсвэл хоосон цаас хэвлэгдсэнгийг та анзаарвал хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгаж хошуу шалгах загварыг хэвлэнэ үү.






See the *User's Guide* for more details.
若需更多詳細資訊，請參閱 *進階使用說明*。
अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг *Хэрэглэгчийн Заавар*-аас үзнэ үү.

Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / पेपर जाम हटाना / Цаас гацалтыг арилгах






Front / 前方 / आगे / Урд тал



Back / 後方 / पीछे / Ард тал



Storing and Transporting / 儲存和運輸 / स्टोर करना और आगे भेजना / Хадгалах ба зөөх



! Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

● 擰緊瓶蓋時請務必保持墨水瓶向上直立。將印表機和墨水瓶分別放入單獨塑膠袋中，存放和搬運印表機時保持印表機處於水平狀態，否則墨水可能洩漏。
● 搬至地點後，請擱下固定印字頭的膠帶。若您發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。

● सुनिश्चित करें कि बॉटल को टाइट करते समय इंक बोतल सीधी रखें। प्रिंटर के संयोजन और परिवहन करते समय प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग से रखें और प्रिंटर को तैवल रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
● इसे स्थानान्तरित करने के बाद, प्रिंट हेड को सुरक्षित रखने वाला टेप निकाल दें। यदि आपको प्रिंट की गुणवत्ता में कोई कमी दिखाई देती है, तो ब्लोनिंग सिइकल चलाएँ या प्रिंट हेड को संरेखित करें।

● Tagiig чангалж байх үедээ бэхний бортогыг босоо байлгаарай. Принтер болон бортогыг гялгар уутанд тусад нь байлгаж, принтерийг хадгалах болон тээвэрлэх үедээ принтерийн түвшинг хэвээр хадгал. Цохиовол, бэх асгарч болно.

● Зөөвөрлөсний дараа хэвлэх толгойг тагласан туузыг авна. Хэрвээ хэвлэлтийн чанар муудаж байгааг анзаарвал цэвэрлэгээний циклийг ажиллуулж, хэвлэх толгойг тэгшитгээрэй。

Important Safety Instructions / 重要安全說明 / महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश / Чухал аюулгүй ажиллагааны зааврууд

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of any other cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
- Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- Do not let the power cord become damaged or frayed.
- Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
- Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.
- Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.
- Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
- Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.
- Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
- If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.
- Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.
- If the LCD screen is damaged, contact your dealer. If the liquid crystal solution gets on your hands, wash them thoroughly with soap and water. If the liquid crystal solution gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems remain after a thorough flushing, see a doctor immediately.

- 僅適用印表機隨附的電源線。使用其他電源線可能導致火災或電擊。請勿使用任一其他設備的電源線。
- 請確保所使用的 AC 電源線符合相關當地安全標準。
- 除非您的文檔內特別說明，否則請勿嘗試自行維修印表機。
- 請勿使電源線受損或鬆動。
- 將印表機靠近可輕鬆拔下電源線的牆壁插座放置。
- 請勿放置或儲存本產品於戶外、靠近過多髒污或灰塵、水、熱源或會受到震動、擺動、高溫或潮濕的位置。
- 請注意勿將遺體灑到本產品上，也勿用濕手操作本產品。
- 將墨水瓶和墨水槽單元置於兒童接觸不到的位置，切勿飲用墨水。
- 請勿劇烈晃動墨水瓶或使其遭受強烈碰撞，以免導致墨水洩漏。
- 請務必保持墨水瓶向上直立，勿使它們遭受碰撞或溫度變化。
- 如果墨水灑到皮膚上，請用肥皂和水充分清洗相關部位。如果墨水灑入眼睛，請立刻用水沖洗眼睛。如果在徹底沖洗後依然感到不適或視覺問題，請立刻就醫。如果墨水灑入胸部，請立刻就醫。
- 請保持本產品距離心臟起搏器至少 22 公分。本產品的無線電波可能對心臟起搏器的運作造成不良影響。
- 如果 LCD 畫面受損，請聯絡您的經銷商。如果液晶溶液灑到手上，請用肥皂和水充分清洗手部。如果液晶溶液灑入眼睛，請立刻用水沖洗眼睛。如果在徹底沖洗後依然感到不適或視覺問題，請立刻就醫。

- प्रिंटर के साथ आने वाली पावर कॉर्ड का ही उपयोग करें। दूसरी कॉर्ड का उपयोग करने से आग लग सकती है या शॉक लग सकता है। कॉर्ड का उपयोग दूसरे उपकरणों के साथ न करें।
- सुनिश्चित करें कि आपकी AC पावर कॉर्ड प्रासंगिक स्थानीय सुरक्षा मानकों के अनुसार हो।
- आपके दस्तावेज़ीकरण में निर्दिष्ट रूप से बताएँ अनुसार छोड़कर, खुद से प्रिंटर को सर्विस देने का प्रयास न करें।
- पावर कॉर्ड को क्षतिग्रस्त होने या घिसने न दें।
- किसी वॉल आउटलेट के पास प्रिंटर रखें जहाँ पावर कॉर्ड को आसानी से प्लग से निकाला जा सके।
- उत्पाद को घर के बाहर, अधिक धूल भरी जगह के पास या धूल में, पानी के पास, उष्मा स्रोतों, या शॉक, कंपन, उच्च तापमान या आदतों वाली जगहों पर न रखें।
- उत्पाद पर कोई तरल पदार्थ न गिरने दें और उत्पाद को गीले हाथों से न छुएँ।
- इंक बोतल और इंक टैंक यूनिट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और उसे न पिएँ।
- बहुत जोर से इंक की बोतल को न हिलाएँ या उस पर मजबूती से जोर न डालें इससे इंक लीक हो सकती है।
- सुनिश्चित करें कि इंक बोतल सीधी हो और उसे प्रभावों या तापमान बदलावों से प्रभावित न होने दें।
- यदि इंक आपकी त्वचा पर गिर जाती है तो उसे साबून और पानी से धो लें। यदि इंक आपकी आंखों में चली जाती है तो उसे तुरंत पानी से धो डालें। यदि आंखों को धोने के बाद परेशानी होती है या देखने में समस्या होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। यदि इंक आपके मुँह में चली जाती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ।
- कार्डिक पेसमेकर्स से इस उत्पाद को कम से कम 22 सेमी दूर रखें। इस उत्पाद से निकलने वाली रेडियो तरंगें कार्डिक पेसमेकर्स के ऑपरेशन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं।
- यदि LCD स्क्रीन क्षतिग्रस्त है, तो अपने डीलर से संपर्क करें। यदि लिक्विड क्रिस्टल सोल्यूशन आपके हाथों में लग जाता है, तो उसे साबून और पानी से पूरी तरह से धो लें। यदि लिक्विड क्रिस्टल सोल्यूशन आपकी आंखों में चला जाता है तो उसे तुरंत पानी से धो डालें। यदि आंखों को धोने के बाद भी आपको असुविधा होती है या देखने में समस्या जारी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ।

- Зөвхөн принтертэй цуг ирдгэ тэжээлийн залгуурыг ашиглах. Өөр залгуур ашиглах нь гал гарах эсвэл хацилгаанд цохиулахад хүргэж болно. Залгуурыг бусад хэрэгсэлд бүү ашигла.
- Хувьсах гүйдлийн тэжээлийн залгуур нь дотоодын холбогдох аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцэж байгаа эсэхийг шалгана уу.
- Таны бичиг баримтад тусгайлан тайлбарласнаас бусад тохиолдолд принтерийг өөрөө засахыг оролдох хэрэггүй.
- Тэжээлийн залгуурыг гэмтээж, элээж болохгүй.
- Принтерийг хананы залгуурт ойр, тэжээлийн залгуурыг хялбар салгаж болохоор айд байрлуулна уу.
- Бүтээгдэхүүнийг хэт их шороо эсвэл тоостой, ус, дулааны эх үүсгүүр, эсвэл хацилган, чичиргээ, өндөр температур, чийгшилд өртөх газарт ойр байрлуулж, хадгалж болохгүй.
- Бүтээгдэхүүн дээр шингэн асгахгүй байхыг анхаарч, бүтээгдэхүүнд нойтон гартай харьцахгүй байх.
- Бэхний бортог, бэхний савыг бага насны хүүхдээс хол байлгаж, бэхийг ууж үл болно.
- Бэхний бортогыг хүчтэй эгсэрч эсвэл бэхийг асгарахад хүргэж болзошгүй тул хүчтэй нөлөөлд өртүүлж болохгүй.
- Бэхний бортогыг босоо байрлуулж, нөлөөлөл, температурын өөрчлөлтөд өртүүлэхгүй байх хэрэгтэй.
- Хэрэв таны арьсанд бэх хүрвэл, тухайн хэсгийг ус болон саваангаар сайтар угаана. Хэрэв таны нүдэнд бэх орвол нэн даруй усаар угаах хэрэгтэй. Хэрэв угаасны дараа, зовиуртай эсвэл харахад бэрхшээлтэй хэвээр байвал, шууд эмчид хандана уу. Хэрэв таны ам руу бэх орсон бол, шууд эмчид хандана уу.
- Энэ бүтээгдэхүүнийг зурхайн аппаратнаас дор хаяж 22 см зайтай байлгана уу. Энэ бүтээгдэхүүний радио долгион нь зурхайн аппаратын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.
- Хэрэв LCD дэлгэц гэмтвэл дилертэйгээ холбогдоно уу. Хэрэв таны гарт шингэн болор уусмал хүрвэл савантай усаар сайтар угаана уу. Хэрэв таны нүдэнд шингэн болор уусмал орвол нэн даруй усаар угаана уу. Хэрэв угаасны дараа эвгүй байх эсвэл харахад асуудалтай байвал нэн даруй эмчид үзүүлнэ үү.

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the *User's Guide* (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions of guides from the following website.
本指南包含有關本產品和故障排除小貼士的基本資訊。若需更多詳細資訊，請參考 *進階使用說明* (數位手冊)。您可從以下網站獲取最新版指南。

इस मार्गदर्शिका में आपके उत्पाद और समस्या निवारण युक्तियों के बारे में मूल जानकारी शामिल होती है। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड मार्गदर्शिका (डिजिटल मैनुअल) देखें। आप इस वेबसाइट से मार्गदर्शिका का नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।

Энэ гарын авлага нь таны бүтээгдэхүүний тухай үндсэн мэдээлэл болон алдаа олж засварлах зөвлөмжүүд агуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг *Хэрэглэгчийн Заавар* (дигитал гарын авлага)-аас үзнэ үү. Та дараах вебсайтаас гарыг авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप से बाहर के लिए / Европосе өөр газар бол
<http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европ бол
<http://www.epson.eu/Support>

Windows* is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPS/G: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Ein störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладания відповідної вишивкою. Технічне регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електропримочу та електроінструменту обладнання.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uyumdur.

Örünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına testip ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketiciilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yönlendirilir.
Drecit: SEKO EPSON CORPORATION
Address: 3-3, Onna 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

